



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र 1947 (श0)

(सं0 पटना 196) पटना, सोमवार, 24 मार्च 2025

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

24 मार्च 2025

सं० 10/अं०शा०/VAT Audit-01/2025-1415—बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं०-27) की धारा 26 की उपधारा (2) के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 22 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यवसाय के विस्तृत वैट अंकेक्षण हेतु व्यवसायियों के चयन के संदर्भ में निम्नांकित मानदण्ड अपनाये गये हैं:—

- “(क) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, डीजल, ATF तथा प्राकृतिक गैस की खरीद-बिक्री हेतु निबंधित वैसे सभी व्यवसायी जिन्होंने वर्ष 2023-24 में अधिनियम के अधीन कर के रूप में रु० 250 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया हो;
- (ख) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, डीजल, ATF तथा प्राकृतिक गैस की खरीद-बिक्री हेतु निबंधित वैसे सभी व्यवसायी जिन्होंने वर्ष 2022-23 में अधिनियम के अधीन कर के रूप में रु० 25 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया हो एवं जिनके द्वारा वर्ष 2022-23 में भुगताये गये कर के राशि की तुलना में वर्ष 2023-24 में भुगताये गये कर की राशि में 10 प्रतिशत से कम की अभिवृद्धि दर्ज की हो;
- (ग) उपर्युक्त कड़िका (क) एवं (ख) में निर्दिष्ट व्यवसायियों के अतिरिक्त बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, डीजल, ATF तथा प्राकृतिक गैस की खरीद-बिक्री हेतु निबंधित वैसे सभी व्यवसायी:—
- (i) जिनका वर्ष 2023-24 में सकल आवर्त रु० 20 करोड़ से अधिक हो, और
- (ii) जिन्होंने वर्ष 2023-24 में अधिनियम के अधीन किसी मद में एक रुपया या उससे अधिक राशि का भुगतान किया हो, और
- (iii) जिनका वर्ष 2022-23 के अंकेक्षण के लिए चयन नहीं किया गया हो।”

उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल 05 व्यवसायियों को अंकेक्षण हेतु चयनित किया गया है, जिनकी अंचलवार सूची अनुलग्नक के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न है।

आदेश से,  
संजय कुमार सिंह,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

***The 24<sup>th</sup> March 2025***

No. 10/अंशा०/VAT Audit-01/2025-1415—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 26 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act no. - 27 of 2005) read with clause (b) of sub-rule (1) of Rule 22 of the Bihar Value Added Tax rules, 2005 the Commissioner has adopted the following criteria for selecting registered dealers for detailed audit of their business relating to the financial year 2023-24:-

- “(A). All dealers registered under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 for the sale and purchase of Petroleum crude, Petrol, Diesel, ATF and Natural gas who have paid a sum exceeding Two hundred fifty crore rupees during the year 2023-24 by way of tax payable;
- (B). All dealers registered under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 for the sale and purchase of Petroleum crude, Petrol, Diesel, ATF and Natural gas who have paid a sum exceeding Twenty five crore rupees during the year 2022-23 by way of tax payable and have also registered an increase of less than 10 percent in the amount of tax paid in the year 2023-24 as compared to the amount of tax paid in the year 2022-23;
- (C). All dealers other than those specified in paragraph (A) and (B) above, registered under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 for the sale and purchase of Petroleum crude, Petrol, Diesel, ATF and Natural gas ;
  - (i) Whose gross turnover during the year 2023-24 exceeded twenty crore rupees, and
  - (ii) Who have paid rupee one or more than Rs. one in any head under this Act during the year 2023-24, and
  - (iii) Who have not been selected for Audit for the year 2022-23”

A total of 05 dealers have been selected for Audit on the basis of above criteria for the financial year 2023-24. The circle wise list of the selected dealers is appended hereto.

By Order,  
SANJAY KUMAR SINGH,  
Commissioner State tax-cum-Secretary.

Dealer List for VAT Audit Selection 2023-24													
Division: All Divisions , Circle: All Circles , Financial Year: 2023-24 , Tax Period: ALL													
Sr. No	Circle Name	Firm Name	Major Comodity	TIN	Gross Turnover	Gross Turnover (In Cr.)	Tax Deposited 2022-23 (in Rs)	Tax Deposited 2022-23 (In Cr.)	Tax Dipoisted 2023-24 (in Rs)	Tax Deposited In 23-24 (In Cr.)	Growth Rate (in %).	Remarks	Pre. Year selection
1	Patna Special Circle	M/S INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	Petro Products	10010116082	520932353858.58	52093.24	49731887899.00	4973.19	45394178174.00	4539.42	-9	Criteria (A&B)	Yes
2	Patna Special Circle	M/S BHARAT PETROLEUM CORPORATION LT	Petro Products	10010121029	95489664007.12	9548.97	26445781365.00	2644.58	23233496349.00	2323.35	-12	Criteria (A&B)	Yes
3	Patna Special Circle	M/S HINDUSTAN PETROLEUM CORPON. LTD	Petro Products	10010120059	73873928559.39	7387.39	17229159031.00	1722.92	16657777673.00	1665.78	-3	Criteria (A&B)	Yes
4	Patna Special Circle	GAIL INDIA LIMITED	Petro Products	10011429011	27175742832.00	2717.57	3084847726.47	308.48	5414352760.00	541.44	76	Criteria (A)	Yes
5	Patna City West Circle	SONAU SERVICE STATION	Petro Products	10080258043	284191594.92	28.42	0.00	0.00	29250.00	0.0029		Criteria (C)	NO

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।  
बिहार गजट (असाधारण) 196-571+500-डी0टी0पी0 ।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>